



Gopal Raju
Scientist n Occultist

गोपाल राजू के बौद्धिक लेख ज्योतिष एवं अध्यात्म की विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में विगत 25 वर्षों से नियमित रूप से छपते आ रहे हैं। पाठकों के लाभार्थ उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तकों 'सरलतम धनदायक तांत्रिक प्रयोग', 'दूर करें दुर्भाग्य', 'स्वयं चुनिए अपना भाग्यशाली रत्न' तथा 'मंत्र सिद्धि के रहस्य' से कुछ लेखों के सार-संक्षेप यहाँ प्रस्तुत हैं।

श्री राम जय राम जय जय राम - एक तारक मंत्र

हमारा जीवन सौभाग्य और दुर्भाग्य की अनुभूतियों से भरा हुआ है। कभी हमें सौभाग्य का अनुभव होता है और कभी दुर्भाग्य का। सौभाग्य हमें निश्चित रूप से अच्छा लगता है परन्तु दुर्भाग्य से दुखी होना किसी को अच्छा नहीं लगता। सब सौभाग्य की ही अपेक्षा रखते हैं। दुर्भाग्य दूर करने के लिए व्यक्ति यथाशक्ति पुरुषार्थ करता है। कर्म करने के ढंग प्रत्येक व्यक्ति के अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ लोग प्रभु का सहारा लेते हैं - उसकी पूजा-अर्चना कर उसकी कृपा पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ लोग मादक द्रव्यों का प्रयोग करने लगते हैं। कुछ लोग अपने-अपने क्रिया-कलापों से मुक्ति पा जाते हैं और अन्य दुःखमय जीवन व्यतीत करते हुए मानसिक संत्रास के शिकार हो जाते हैं।

यदि देखा जाए तो यह सब मूलतः इस बात पर अधिक निर्भर करता है कि हम उसे अनुभव करते हैं अथवा नहीं। दुर्भाग्य की मात्रा और दुर्भाग्य होने की समयावधि इस बात पर निर्भर करती है कि दुःख का अनुभव हम कितनी गहनता से अथवा गहराई से करते हैं। दुर्भाग्य एक व्यक्ति के लिए पहाड़ के समान होता है। परंतु किसी के लिए वही एक साधारण सी बात भी हो सकती है। दुःख अथवा दुर्भाग्य वास्तव में सौभाग्य के कम हो जाने का नाम है। इसी प्रकार दुःख का कम हो जाना सुख अथवा सौभाग्य का प्रतीक है। दोनों का जीवन में अनुभव आवश्यक रूप से होता रहता है। यह नाव के दो चप्पुओं के समान है। यदि एक का भी संतुलन बिगड़ा तो समझिए कि जीवन की नाव डगमगा जाएगी।

अपनी जीवन की नैया को संतुलन में रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय तारक मंत्र है - 'श्री राम, जय राम, जय जय राम।' कुल सात शब्दों वाले साधारण से दिखने वाले इस मंत्र में जो शक्ति छिपी हुई है, वह चर्चा का विषय नहीं है। न ही वह पढ़ने-पढ़ाने से समझ आएगी। यह तो उस मीठे फल के समान है जिसका स्वाद चख कर ही उसके गुण का अनुभव किया जा सकता है। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज यही है कि हम राम नाम का सहारा नहीं ले रहे हैं, हमने जितना भी अधिक राम नाम को खोया है, हमारे जीवन में उतनी ही विषमता बढ़ी है, उतना ही अधिक संत्रास हमें मिला है। एक सार्थक नाम के रूप में हमारे ऋषि-मुनियों ने राम नाम को पहचाना है। उन्होंने इस पूज्यनीय नाम की परख की और नामों के आगे लगाने का चलन प्रारंभ किया। प्रत्येक हिन्दू परिवार में देखा जा सकता है कि बच्चे के जन्म में राम के नाम का सोहर होता है। वैवाहिक आदि सुअवसरों पर राम के गीत गाये जाते हैं। यहाँ तक कि जीव के अंतिम समय में भी राम के नाम का घोष किया जाता है। राम सब में हैं। राम में ही शिव और शिव में ही राम विद्यमान हैं। राम जी को शिव का महामंत्र माना गया है। राम

सर्वमुक्त हैं। राम सबकी चेतना का सजीव नाम हैं। कुख्यात डाकू रत्नाकर राम नाम से वशीभूत होकर प्रभावित हुआ। अंततः महर्षि वाल्मिकि नाम से विख्यात हुआ। राम नाम की चैतन्य धारा से समय की प्रत्येक आवश्यकताएँ स्वयं ही पूरी हो जाती हैं। ये नाम सर्वसमर्थ है।

**जो चेतन को जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य।
अस समर्थ रघुनायकहिं, भजत जीवते धन्य॥**

प्रत्येक राम भक्त के लिए राम उसके हृदय में वास कर सुख सौभाग्य और सान्त्वना देने वाले हैं। तुलसीदास जी ने राम चरित मानस में लिख दिया है कि प्रभु के जितने भी नाम प्रचलित हैं, उन सब में सर्वाधिक श्री फल देने वाला नाम राम का ही है। इससे एक बधिक, पशु-पक्षी आदि तक तर जाते हैं।

भद्राचलम् के भक्त रामदास, महाराष्ट्र के समर्थ गुरु रामदास, कान्हागढ़ के संत रामदास, रामकृष्ण परमहंस, गांधी जी आदि हनुमान जी की ही परम्परा पर चले। सब संत जन श्री राम को सदैव अपने हृदय में रखकर उसी की प्रेरणा से महान और सौभाग्यशाली बने। दक्षिण भारत के संत त्यागराज ने वर्षों राम नाम का जप किया। अंततः उन्हें राम का साक्षात्कार हुआ। सारा जीवन कृष्ण के प्रेम में लीन मीरा बाई ने अंततः यही गाया - 'पायो जी मैंने राम रतन धन पायो', उन्होंने कृष्ण रतन धन क्यों नहीं कहा?

श्री राम का वर्णन यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अन्य देवी-देवताओं की तुलना में वह सबको सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। यह नाम सबसे सरल, सुरक्षित तथा निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाला है। मंत्र जप के लिए आयु, स्थान, परिस्थिति, काल, जात-पात आदि किसी भी बाहरी आडम्बर का बंधन नहीं है। किसी क्षण, किसी भी स्थान पर इसे जप सकते हैं। मुझसे प्रायः जिज्ञासु प्रश्न करते हैं कि क्या

महिलाएं जब पॉच दिन अपवित्र हों, तब मंत्र जप न करें? राम नाम जप में ऐसा कोई बंधन नहीं है। वैसे भी मेरी मान्यता है कि स्त्रियों पूजा से वंचित क्यों रहें। प्रभु के लिए सब समान हैं। जब मन सहज रूप में लगे, तब ही मंत्र जप कर लें।

तारक मंत्र 'श्री' से प्रारंभ होता है। 'श्री' को सीता अथवा शक्ति का प्रतीक माना गया है। राम शब्द 'रा' रकार और 'म' मकार से मिल कर बना है। 'रा' अग्नि स्वरूप है। यह हमारे दुष्कर्मों का दाह करता है। 'म' जल तत्व का द्योतक है। जल आत्मा की जीवात्मा पर विजय का कारक है। इस प्रकार पूरे तारक मंत्र - 'श्री राम, जय राम, जय जय राम' का सार निकलता है - शक्ति से परमात्मा पर विजय। 'ॐ' बीज मंत्र को हिन्दू धर्म में परमात्मा का प्रतीक माना गया है। इसलिए मंत्र से पूर्व 'ॐ श्री राम, जय राम, जय जय राम' रूप में जपा जाता है।

योग शास्त्र में देखा जाए तो 'रा' वर्ण को सौर ऊर्जा का कारक माना गया है। यह हमारी रीढ़ रज्जू के दायीं ओर स्थित पिंगला नाड़ी में स्थित है। यहाँ से यह शरीर में पौरुष ऊर्जा का संचार करता है। 'मा' वर्ण को चन्द्र ऊर्जा कारक अर्थात् स्त्री लिंग माना गया है। यह रीढ़ रज्जू के वॉयीं ओर स्थित इड़ा नाड़ी में प्रवाहित होता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वास और निश्वास में निरंतर रकार 'रा' और मकार 'म' का उच्चारण करते रहने से दोनों नाड़ियों में प्रवाहित ऊर्जा से सामंजस्य बना रहता है।

आध्यात्मवाद में यह माना गया है कि जब व्यक्ति 'रा' शब्द का उच्चारण करता है तो इसके साथ-साथ उसके आंतरिक पाप बाहर फेंक दिये जाते हैं। इस समय अंतःकरण निष्पाप हो जाता है। अभ्यास में भी 'रा' को इस प्रकार उच्चारित करना है जिससे कि पूरे का पूरा स्वास बाहर निकल जाए। इस समय आपको 'तानदेन' से रिक्ततः अनुभव होने लगेगी। इस स्थिति में पेट बिल्कुल पिचक जाता है। एक बार पुनः स्पष्ट कर लें कि 'रा' का केवल उच्चारण मात्र ही नहीं करना है, इसे लम्बा खीचना है। रा....ऽ....

.S....S। अब 'म' का उच्चारण करें। 'म' शब्द बोलते ही दोनों होंठ स्वतः एक ताले की मानिन्द बंद हो जाते हैं और इस प्रकार वाह्य विकार पुनः अंतःकरण में प्रवेश करने पर बंद होंठ उन्हें रोक लगा देते हैं। राम नाम अथवा मंत्र रटते रहने से मन-मस्तिष्क को पवित्रता प्राप्त होती है और व्यक्ति अपने पवित्र मन में परब्रह्म-परमेश्वर के अस्तित्व को अनुभव करने लगता है। ये कितनी सरल विधि है। शान्ति पाने का ये कितना सरल उपक्रम है। फिर भी न जाने क्यों व्यक्ति इधर-उधर भटकता फिरता है?

व्यक्ति के शरीर में 72,000 नाड़ी मानी गयी हैं। इनमें से 108 नाड़ियों का अस्तित्व हृदय में माना गया है। इसलिए मंत्र जप संख्या 108 मानी गयी है। अर्थात् एक माला। 108 जप संख्या के अनेक महत्व हैं। यहाँ केवल इतना समझ लें कि इतना जप करना महत्वपूर्ण है।

सुर, ताल तथा नाद और प्राणायाम से जप को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है। मंत्र जाप में तीन पादों की प्रधानता है। पहले आता है मौखिक जाप। जैसे ही हमारा मन मंत्र के सार को समझने लगता है हम जाप की द्वितीय स्थिति अर्थात् उपांशु में पहुँच जाते हैं। इस स्थिति में मंत्र की फुसफुसाहट भी नहीं सुनी जा सकती। तृतीय स्थिति में मंत्र जप केवल मानसिक रह जाता है। यहाँ मंत्रोच्चार केवल मानसिक रूप से चलता है। इसमें दृष्टि भी खुली रहती है और मानसिक संलग्नता के साथ-साथ व्यक्ति अपने दैनिक कर्मों में भी लीन रहता है। यह अवस्था मंत्र के एक करोड़ जाप कर लेने मात्र से आ जाती है। यहीं से शाम्भवी मुद्रा सिद्ध हो जाती है और साधक की परमहंस की अवस्था पहुँच जाती है।

एक लाख तारक मंत्र जप लेने से व्यक्ति में अनोखी अनुभूति होने लगती है। यहाँ से व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य नाम की किसी भी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। यदि ऐसा व्यक्ति मंत्र जप के बाद किसी बीमार व्यक्ति की भृकुटी में सुमेरु छुआ

दे, तो उसे आशातीत लाभ होने लगेगा। परन्तु इस प्रकार के प्रयोग के बाद माला को गंगा जल से शुद्ध करके फिर प्रयोग करना चाहिए।

यहाँ माला का भी स्पष्टीकरण कर दूँ क्योंकि अज्ञानतावश कुछ लोग इसका उचित प्रयोग नहीं कर पाते। मंत्र जप माला में 108 मनके होते हैं। माला कार्यानुसार तुलसी, वैजयन्ती, रुद्राक्ष, कमल गट्टे, स्फटिक, पुत्रजीवा, अकीक, रत्नादि किसी की भी हो सकती है। अलग-अलग कार्य सिद्धियों के अनुसार ही इन मालाओं का चयन होता है। तारक मंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ माला तुलसी की मानी जाती है। माला के 108 मनके हमारे हृदय में स्थित 108 नाड़ियों के प्रतीक स्वरूप हैं। माला का 109 वाँ मनका सुमेरु कहलाता है। व्यक्ति को एक बार में 108 जाप पूरे करने चाहिए। इसके बाद सुमेरु से माला पलटकर पुनः जाप आरम्भ करना चाहिए। किसी भी स्थिति में माला का सुमेरु लांघना नहीं चाहिए। माला को अंगूठे और अनामिका से दबाकर रखना चाहिए और मध्यमा उँगली से एक मंत्र जपकर एक दाना हथेली के अन्दर खींच लेना चाहिए। तर्जनी उँगली से माला का छूना वर्जित माना गया है। माला के दाने कभी-कभी 54 भी होते हैं। ऐसे में माला फेरकर सुमेरु से पुनः लौटकर एक बार फिर एक माला अर्थात् 54 जप पूरे कर लेना चाहिए। जिन्हें अधिक लगन है वह 1008 बार एक बैठक में नाम जप करें। मानसिक रूप से पवित्र होने के बाद किसी भी सरल मुद्रा में बैठें जिससे कि वक्ष, गर्दन और सिर एक सीधी रेखा में रहे। मंत्र जप पूरे करने के बाद अन्त में माला का सुमेरु माथे से छुआकर माला को किसी पवित्र स्थान में रख देना चाहिए।

मंत्र जप में कर माला का प्रयोग भी किया जाता है। जिनके पास कोई माला नहीं है वह कर माला से जप करें। प्रयोग इस प्रकार की ओर जाते हुए करमाला की गिनती का विधान है। प्रथम पोर से एक तथा उसकी तीसरी पोर से तीन तक गिनती हो जाएगी। चौथी संख्या मध्यमा के निचले पोर से प्रारम्भ होगी। मध्यमा को ऊपरी पोर छः की

गिनती दर्शाएगा। तर्जनी में इसी प्रकार ऊपरी पोर तक नौ की गिनती पूरी हो जाएगी। जब दसवीं गिनती के लिए अंगूठा पुनः अनामिका उंगली के प्रथम पोर पर आएगा और क्रमशः ग्यारह-बारह जपते हुए इसी उंगली के अन्तिम अर्थात् तीसरे पोर पर पहुँच जाएगा। इस चक्र में बारह तक गिनती पूरी हो जाएगी। एक चक्र के बाद बाएं हाथ का अंगूठा इसी हाथ की अनामिका उंगली के प्रथम पोर पर रख लें। अंगूठा यहीं रखे रहें। दूसरे चक्र के लिए दाएं हाथ में क्रमशः अनामिका के प्रथम पोर से चलकर तर्जनी के अन्तिम पोर तक जाकर पुनः अनामिका उंगली के अन्तिम पोर तक आ जाने से बारह संख्या एक बार फिर पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही बाएं हाथ का अंगूठा अब इस हाथ की ही अनामिका के द्वितीय पोर पर रख लें तो आपके चौबीस जप पूरे हो जाएंगे।

इसी प्रकार दाएं हाथ से 12-12 के 9 चक्र पूरे कर लें। गिनती के लिए बाएं हाथ की तर्जनी के अन्तिम पोर तक 9 की संख्या निश्चित है ही। अन्तिम चक्र में इस प्रकार आपके 12 गुणा 9 = 108 जप अर्थात् एक माला पूरी हो जाएगी। कर माला से मंत्र जप करने में भी माला के बराबर जप का फल मिलता है। इससे श्रेष्ठ जप ये माना गया है कि श्वास-निश्वास में निरन्तर राम नाम निकलता रहे। जहाँ तक सम्भव हो हर घड़ी, हर क्षण राम का नाम अन्तर्मन में रटा जाता रहे जिससे कि रोम-रोम में राम नाम समा जाए। ठीक ऐसे ही जैसे कि “मारुति के रोम रोम में बसा राम नाम है।”

जप के अतिरिक्त राम मंत्र को लिखकर भी आत्मशुद्धि की जा सकती है। एक लाख मंत्र एक निश्चित अवधि में लिखकर यदि पूरे कर लिए जाएं तो अन्तर्मन उज्ज्वल बनता है। व्यक्ति यदि चार करोड़ मंत्र अथवा मात्र राम नाम लिखकर अथवा जपकर पूर्णकर लें तो उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। वह निश्चित ही भवसागर को पार कर जाता है। परन्तु यह कार्य सरल नहीं है। क्योंकि मन बहुत चंचल है एक जगह स्थिर ही नहीं होता।

एक मिनट में सामान्य व्यक्ति 15 सॉसे लेता है। इस प्रकार एक घण्टे में 900 और एक दिन में 21600 सॉसे ले लेगा। एक वर्ष में यह संख्या 70 लाख 76 हजार होगी। यदि प्रत्येक सॉस में वह राम नाम ले सकेगा तो 4 करोड़ संख्या वह लगभग 5 वर्ष में पूरी कर पाएगा। 24 घंटे में 12 घंटे यदि अन्य कार्यों के लिए निकाल दें तो 4 करोड़ जप वह 10 वर्षों में पूरे कर पाएगा। यह जब ही सम्भव है जब प्रत्येक सॉस में वह अन्य कोई विचार न लाए। स्वयं अनुमान करें कि यह कितना कठिन है। इसीलिए पुण्यफल एक-दो जन्मों में नहीं मिल पाता। इसके लिए जन्म-जन्मान्तर का समय चाहिए। जितनी कम आयु से नाम का जप प्रारम्भ कर दिया जाए उतना ही अच्छा है क्योंकि एक अवस्था के बाद अभ्यास की कमी के कारण शरीर भी कार्य करने से आनाकानी करने लगता है।

नाम जप का लेखा-जोखा रखने के लिए अनेक स्थानों में निःस्वार्थ भाव से राम नाम के बैंक भी चल रहे हैं। कुछ लोग तो राम नाम लिखने की लेखन पुस्तिका निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। आप भी आज से मंत्र जप का सहारा लेकर दुर्भाग्य को दूर भगाएं और राममय हो जाएं - श्री राम, जय राम, जय जय राम ।
